



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 22, शुक्रवार, शाके 1941-सितम्बर 13, 2019
Bhadra 22, Friday, Saka 1941-September 13, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER**

Jaipur, September 12, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/9896 :-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Keshoraipatan has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Keshoraipatan. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer .

By Order,

Ujjwal Rathore,

Joint Secretary to Government

कार्यालय नगर पालिका केशवराय पाटन जिला बून्दी (राज0)

प्रपत्र-क

क्र.सं.	वार्डों का विवरण
1	रिलायंस पेट्रोल पम्प के पास नगर पालिका सीमा से प्रारम्भ कर मेगा हाईवे रेल्वे लाईन क्रॉस कर नहर के सहारे-सहारे नगर पालिका सीमा तक उत्तर दिशा में चलते हुए बून्दी रोड़ पर नहर नाले से पूर्व दिशा में मुड़कर बून्दी रोड़ सड़क की दायी आबादी को शामिल कर रेल्वे फाटक क्रॉस कर शुगरमिल गेट से कापरेन रोड़ तक मेगा हाईवे से चलते हुए शिव मंदिर तक शुगर मिल की दायी आबादी को शामिल करते हुए अम्बेडकर भवन को शामिल कर आईडएसएमटी योजना की सड़क पर चलते हुए के0पाटन बून्दी रोड़ पर उत्तर दिशा में मुड़कर रास्ते रास्ते एफसीआई गोदाम के सामने की कॉलोनी को शामिल कर कॉलोनी के पीछे माईनर पर चलते हुए शिवपुरी की आबादी को शामिल कर रिलायंस पेट्रोल पम्प तक मध्य का सम्पूर्ण क्षेत्र।
2	तीन संख्या नाले से पश्चिम दिशा में नहर नहर चलते हुए मुख्य मार्ग बस स्टेण्ड से चलकर धर्मेन्द्र एन्टरप्राईजेज तक, धर्मेन्द्र एन्टरप्राईजेज के सामने मुख्य सड़क क्रॉस कर कजोड़लाल के सामने कॉलोनी को शामिल कर पश्चिम दिशा में नगर पालिका सीमा तक

	चलकर उत्तर दिशा में मुड़कर केशव विहार कॉलोनी के पीछे वार्ड नं. 1 की सीमा तक चलकर केशव विहाकर कॉलोनी को शामिल कर के0पाटन बून्दी रोड़ तक पाटन रोड़ चलकर अम्बेड़कर भवन की सड़क पर चलते हुए थाने के पास मारवाड़ा बस्ती को शामिल कर थाने के पीछे आईडीएसएमटी योजना के पीछे ड्रेन तक, ड्रेन के सहारे चलते हुए नहर पर तीन संख्या नाले तक मध्य का सम्पूर्ण क्षेत्र।
3	मालव टेन्ट हाउस से चलकर गोपाल जी शर्मा तक गोपाल जी से दक्षिण दिशा में महावीर श्रृंगी तक महावीर श्रृंगी से पश्चिम दिशा में मुड़कर महेन्द्र पालीवाल के मकान को शामिल कर उत्तर दिशा में मुड़कर महावीर शर्मा के मकान को शामिल कर, कान्हा जी के मकान को शामिल करते हुए बट्टी पण्डित के मकान को शामिल कर नहर तक नहर पश्चिम दिशा में मुड़कर नगर पालिका सीमा तक राजराजेश्वर रोड़ होते हुए राजराजेश्वर, राजराजेश्वर रोड़ होते हुए तहसील रोड़ तक, तहसील रोड़ से मुड़कर मालव टेन्ट हाउस तक मध्य का सम्पूर्ण क्षेत्र।
4	गौरव पथ पर कजोड लाल के मकान से प्रारम्भ होकर कॉलोनी सड़क पर पश्चिम दिशा में चलकर धमेन्द्र के गोदाम से होते हुए पीछे की कॉलोनी को शामिल कर दक्षिण दिशा में मुड़कर नहर तक नहर क्रॉस कर बसेड़ा बस्ती को शामिल कर ब्रदीलाल तक चलकर पुव दिशा में मुड़कर रामलाल सैनी के मकान तक, रामलाल के मकान से दक्षिण दिशा में मुड़कर सुरेश पालीवाल तक, सुरेश पालीवाल के मकान से पुर्व दिशा में मुड़कर धन्नालाल शर्मा के मकान तक, धन्नालाल मकान से उत्तर दिशा में मुड़कर प्रहलाद जी गौतम तक, प्रहलाद से पुर्व दिशा में मुड़कर गौरव पथ रोड़ तक बालाजी दंत क्लीनिक से उत्तर दिशा में मुड़कर कजोड़लाल के मकान से नहर तक मध्य का सम्पूर्ण क्षेत्र।
5	कब्रिस्तान रोड़ राजराजेश्वर रोड़ से प्रारम्भ कर पश्चिम दिशा में चलते हुए बसीर के मकान दक्षिण दिशा में मुड़कर झरनिया बस्ती रास्ते से चलते हुए मोहन माली शंकर कॉलोनी के मुख्य मार्ग पर मुड़कर तहसील रोड़ तक प्रियांशु बेकरी से मुड़कर मक्केशाह दरगाह होते हुए कब्रिस्तान के रास्ते राजराजेश्वर रोड़ के मध्य का क्षेत्र
6	रधुमाली झरनिया बस्ती रोड़ पर चलते हुए सत्यनारायण माली के मकान से पश्चिम दिशा में मुड़कर रास्ते-रास्ते सामुदायिक शौचालय तक मदन गुर्जर के मकान को शामिल कर नदी की तरफ नगर पालिका सीमा तक नदी से पश्चिम दिशा में मुड़कर राजराजेश्वर मंदिर होते हुए पटोलिया रोड़ तक पटोलिया रोड़ से राजराजेश्वर रोड़ होते हुए रधुमाली तक मध्य का सम्पूर्ण क्षेत्र।
7	भगवान राठौर के मकान से शुरू होकर मालीयों के मंदिर के सामने होते हुए बाबूलाल माली के सामने करीरीया भैरूजी नाले में बायी आबादी देवनारायण मंदिर के पास की आबादी गढ़ी के हनुमान जी होते हुए चम्बल नदी तक, चम्बल नदी पर चलकर उत्तर

	दिशा में मुड़कर जलदाय विभाग होते हुए, जलदाय विभाग के सामने गली की बायी आबादी, प्रभूलाल केवट के मकान को शामिल कर अशोक सुमन के मकान होते हुए बाबूलाल धाकड़ तक चौथमल तैली होते हुए भगवान तैली के मकान तक मध्य का सम्पूर्ण क्षेत्र।
8	अरविन्द शर्मा के मकान से प्रारम्भ करके पश्चिम दिशा (करकरा बाजार रास्ते पर) में चलते हुए पुराने तहसील रोड़ को क्रॉस कर रामावतार खण्डेलवाल के मकान को शामिल करते हुए बाबूलाल के मकान से गली में मुड़कर नावघाट रोड़ तक नावघाट रोड़ पर उत्तर दिशा में मुड़कर लक्ष्मीनारायण जी मंदिर के पास पुरूशोत्तम गुप्ता की दुकान को शामिल करके पश्चिम दिशा में मुड़कर रामधन केवट के मकान को शामिल करते हुए चन्द्रप्रकाश केवट गुलाबचन्द केवट के मकान को शामिल कर चम्बल नदी नगर पालिका सीमा तक चम्बल नदी से पूर्व दिशा में मुड़कर नावघाट रोड़ पर चलते हुए जैन मंदिर के सामने गली में महावीर जांगीड़ के मकान को शामिल करते हुए मस्जिद तक, मस्जिद से सीधे चलते हुए रामजानकी मंदिर को शामिल कर महावीर जैन की गली शामिल करते हुए वासुदेव जी के मकान को शामिल कर मकान से उत्तर दिशा में मुड़कर मदन मोहन जी मंदिर से होते हुए अरविन्द शर्मा के मकान तक मध्य का सम्पूर्ण क्षेत्र।
9	महावीर सुमन तहसील रोड़ से धनश्याम शर्मा तक धनश्याम शर्मा के मकान से पश्चिम दिशा में मुड़कर ब्रजमोहन शर्मा के मकान को शामिल कर गली में होते हुए सत्यनारायण सोनी के मकान तक सत्यनारायण के मकान से उत्तर दिशा में मुड़कर बालाजी की छतरी तक बालाजी की छतरी को शामिल कर मालीयों के मंदिर होते हुए बजरंगलाल सुमन के मकान होते हुए महावीर सुमन तक, महावीर सुमन से होते हुए छोटूलाल प्रजापत तक गीता भवन के सामने की गली में महावीर सुमन तक मध्य का सम्पूर्ण क्षेत्र।
10	पुरानी तहसील रोड़ पर किशन गोपाल सैनी के मकान से प्रारम्भ होकर दक्षिण दिशा में चलकर महेन्द्र राठौर के मकान से पश्चिम दिशा में मुड़कर अवध बिहारी के मकान तक, महावीर जैन से हुकमचन्द सैनी के खेत के सामने की गली में होते हुए सैनी के मकान होते हुए पश्चिम दिशा में दुर्गालाल के मकान से होकर बाबूलाल सुमन तक बाबूलाल के सामने करीरीया भैरू जी के नीचे नाले तक की आबादी को शामिल कर शौचालय के उत्तर दिशा में चल कर रमेश गुर्जर के मकान तक रमेश गुर्जर से मदनलाल व मदनलाल से उत्तर दिशा में अयुब अली के मकान तक, अयुब अली के मकान से शंकर कॉलोनी का रास्ते होते हुए किशन गोपाल तक मध्य का सम्पूर्ण क्षेत्र।
11	दरगाह के सामने प्याऊ से प्रारम्भ होकर पुराने तहसील रोड़ पर चलते हुये मनीष सेनी की दुकान तक, दुकान से करकरा बाजार के रास्ते पर चलते हुये मन्द्रालिया हनुमान जी तक, हनुमान जी के मंदिर से उत्तर दिशा में मुड़कर चौमुखा बाजार होते हुये, मुख्य बाजार

	होते हुए प्याऊ तक मध्य का सम्पूर्ण क्षेत्र।
12	कमल पानवाले से प्रारम्भ कर मात्रा रोड़ पर चलते हुए महावीर दिक्षित की गली में मुड़कर मंजुला शर्मा के मकान को शामिल करते हुए दायी तरफ की आबादी गुरुद्वारे तक चलकर, गुरुद्वारे के पीछे के रास्ते से चलते हुए सलीम के मकान को शामिल करते हुए दायी आबादी शामिल कर सलीम के मकान से मांगीलाल के मकान से होते हुए निजाम के मकान से होते हुए एवन मैरिज गार्डन को शामिल कर कन्हैया भगत के पीछे की आबादी लेते हुए गल्स स्कुल के दाए व बाए तरफ की आबादी को शामिल कर मुख्य बाजार से चलते हुए कमल पान वाले तक तक मध्य का सम्पूर्ण क्षेत्र।
13	भंवर सिंह के मकान से प्रारम्भ होकर पूर्व दिशा में चलकर जगदीश राठौर के मकान को शामिल कर उत्तर दिशा में मुड़कर अब्दुल सलाम व कन्हैया भगत के मकान को शामिल कर फजलू कसाई की गली की दायी आबादी को शामिल कर गोल चबुतरा होते हुए जुम्मा पठान के मकान होते हुए करकरा बाजार के रास्ते में रामेश्वर सेन के मकान होते हुए करकरा बाजार के रास्ते मंद्रालिया हनुमान जी होते हुए भंवर जादौन के मकान तक मध्य का सम्पूर्ण क्षेत्र।
14	श्रृंगीयो के मंदिर से पूर्व दिशा में चलते हुए नाजिम साहब के नोहरे को शामिल कर छीतर लाल चोधरी के मकान से चलते हुए गणेश जी की छतरी तक गणेश जी छतरी से करकरा बाजार के रास्ते पर चलते हुए बट्टी जी मकान से मुड़कर दक्षिण दिशा में चलते हुए आदिनाथ जैन के मकान को शामिल करते हुए नदी पर जाने वाले रास्ते चलते हुए रामदेव मंदिर को शामिल कर नदी तक नगर पालिका सीमा तक नदी से पश्चिम दिशा में मुड़कर नाव घाट रोड़ पर चलते हुए गिराज शर्मा की गली में मुड़कर पुलिस चौकी से चलते हुए श्रृंगीयो के मंदिर के तक मध्य का सम्पूर्ण क्षेत्र।
15	शिवनारायण जी गुप्ता के मकान से प्रारम्भ होकर आदिनाथ जैन के सामने की आबादी को शामिल कर रास्ते-रास्ते नदी तक बाये आबादी को शामिल कर नदी से पूर्व दिशा पर चलकर ब्रहम घाट तक, घाट से मुड़कर रमेश मेघवाल के मकान को शामिल कर, रामचन्द्र मेघवाल तक दोलतराम मास्टर से चलते हुए राधेश्याम मेघवाल के मकान के सामने की गली में होते हुए लटूर माली के मकान को शामिल कर भैरू जी छतरी होते हुए शिवनारायण गुप्ता के मकान तक मध्य का सम्पूर्ण क्षेत्र।
16	निजामुद्दीन के मकान से प्रारम्भ होकर बड़ी मस्जिद के रास्ते होते हुए इदरीस के मकान के दाये आबादी को शामिल करते हुए लियाकत अली के मकान के सामने होते हुए सत्तार के मकान को शामिल कर पुर्व दिशा में राधेश्याम मेघवाल के मकान से मुड़कर गली में होते हुए राजमल मालव के मकान को शामिल करकरा बाजार रास्ते से होते हुए भैरू जी की छतरी के सामने होते हुए मुरारीलाल कहालिया का मकान होते हुए राधेश्याम बाहेती,

	शकुर जी के मकान से होते हुए निजामुद्दीन के मकान तक मध्य का सम्पूर्ण क्षेत्र।
17	गफफार के मकान से प्रारम्भ होकर पहलवान जी की ठेक होते हुए धन्नालाल जी कलाल का मकान शामिल कर सत्तार के सामने की गली की बायी आबादी को शामिल करके पटवार घर की तरफ चलकर रामचन्द्र के सामने के मकान को शामिल कर रामस्वरूप कारीगर के मकान को शामिल करते हुए दावलपीर रास्ते पर चलते हुए गफफार के मकान तक मध्य का सम्पूर्ण क्षेत्र।
18	करकरा बाजार रास्ते पर भैरूलाल जी के मकान से प्रारम्भ होकर सिराज के मकान होते हुए डोडू के मकान तक मो० अली के मकान से होते हुए दायी आबादी को शामिल कर पहलवान जी की ठेक तक, पहलवान जी की ठेक से उत्तर दिशा में चलकर जमील के मकान से होते हुए अल्ताफ के मकान तक, अल्ताफ के मकान से पश्चिम दिशा में चलकर इकराम के मकान तक इकराम के मकान से मजीद के मकान होते हुए इकराम के मकान तक, इकराम के मकान से सिराज के मकान होते हुए पीछे की गली कसाई गली में अब्दुल वहीद के मकान होते हुए गोल चबुतरा, लुहार गली में पीरू भिस्ती के मकान होते हुए कमल के मकान से नाथूलाल हासलीवाल के मकान होते हुए भैरू के मकान के मध्य का क्षेत्र
19	दावलपीर चैक वसीम टाबे वाले से मात्रा रोड़ की तरफ चलकर पीरू जमादार के भूखण्ड से उपर चलकर रसीदन के मकान होते हुए जाकीर के मकान तक जाकीर से अमीर मोहम्मद के मकान तक इमानुअल स्कुल होते हुए ब्रजमोहन चन्देल तक ब्रजमोहन चन्देल से मोईन भाई के सामने की गली में चलकर रहुफ के मकान को शामिल कर सिराज भाई के सामने की गली से होते हुए बबलू साबीर के प्लाट से मुड़कर जक्की अंसारी के मकान से होते हुए मोहम्मद यासीन के मकान से होते हुए दावलपीर रोड़ तक, दावलपीर रोड़ से उत्तर दिशा में मुड़कर वसीम टाबे वाले तक तक मध्य का सम्पूर्ण क्षेत्र।
20	खटिक समाज छात्रावास की बाउण्ड्रीवाल से प्रारम्भ होकर भंवरलाल गुर्जर के मकान को शामिल कर कमला बाई के मकान को शामिल करते हुए जोशियो की तिबारी रोड़ तक छीतर भाई के मकान तक छीतर के सामने पप्पू भाई के मकान से जोशियो की स्कुल होते हुए दावलपीर दरगाह को शामिल कर मदन गोड के मकान होते हुए सहार-सहारे रास्ते होते हुए बालाजी मंदिर होकर नगर पालिका सीमा तक सुनगर नहर की बीच की उंट की बस्ती शामिल कर माधोराजपुरा रोड़ होते हुए खटिक समाज धर्मशाला की बाउण्ड्री तक मध्य का सम्पूर्ण क्षेत्र।
21	बद्रीलाल नागर की दूकान से प्रारम्भ कर इदगाह की बाउण्ड्री वाल के सहारे-सहारे आश्रय स्थल तक प्रेमचन्द हरिजन के मकान से प्रारम्भ कर पश्चिम दिशा में चलकर अम्बेड़कर भवन के सामने हजारी लाल प्रजापत के मकान को शामिल कर दावलपीर रास्ते चलकर

	कमला बाई के मकान से सलीम के मकान को शामिल कर रफीफ के मकान से यासीन बाबा के मकान तक सुरजीत के मकान से चलते हुए मात्रा रोड़ बायी आबादी मात्रा रोड़ से बट्टी धाकड की दुकान तक मध्य का सम्पूर्ण क्षेत्र।
22	प्रताप मेडीकल से प्रारम्भ कर मात्रा रोड़ पर चलते हुए बायी आबादी को शामिल कर केशव स्कुल तक केशव स्कुल से उत्तर दिशा में मुड़कर केशव स्कुल के पीछे सुनगर ब्रांच नहर तक नहर से चलते हुये दुर्गा कॉलोनी शामिल कर इन्द्रपुरिया मार्ग तक, इन्द्रपुरिया मार्ग से पश्चिम दिशा में मुड़कर के0पाटन की मुख्य सड़क गोरवपथ तक, गोरवपथ पर दक्षिण दिशा में मुड़कर प्रताप मेडीकल तक मध्य का सम्पूर्ण क्षेत्र।
23	अम्बेड़कर भवन से प्रारम्भ कर सामुदायिक शौचालय होते हुए जोशियो की तिबारी स्कुल के सामने की आबादी शामिल कर छीतर भाई के बायी तरफ की आबादी शामिल कर महावीर गुर्जर के पीछे की बस्ती को शामिल करके बाबूलाल पांचाल से मात्रा रोड़ तक दोनो तरफ की आबादी शामिल कर माधोराजपुरा रोड़ पर नगर पालिका सीमा तक नहर क सहारे-सहारे तीन संख्या नाले तक बाह्य आबादी को शामिल कर तीन संख्या नाले से केशव विद्यालय के पास फून्दीलाल गुर्जर के मकान को शामिल कर इदगाह शामिल कर गोरधन जी के मकान से अम्बेड़कर भवन तक मध्य का सम्पूर्ण क्षेत्र।
24	लड्डू सरदार से प्रारम्भ करके उत्तर दिशा में चलकर रेल्वे लाईन क्रॉस कर नहर की तरफ नगर पालिका सीमा तक नहर के सहारे-सहारे कापरेन की तरफ चल कर नगर पालिका सीमा तक दक्षिण दिशा में मुड़कर गणेश जी मंदिर पेट्रोल पम्प के पास की आबादी को शामिल कर शुगर मिल के पीछे की बाह्य आबादी को शामिल करते हुए तीन संख्या नाले होकर शुगर मिल के पीछे से होते हुए शिव मंदिर के पास मेगा हाईवे तक मेगा हाईवे से काप्रेन की तरफ चलते हुए गर्ल्स कालेज तक दायी तरफ की आबादी को शामिल कर मेगा हाईवे क्रॉस कर लड्डू सरदार तक मध्य का सम्पूर्ण क्षेत्र।
25	सुरजमल गुर्जर से प्रारम्भ होकर उत्तर दिशा में रेल्वे लाईन क्रॉस करके नहर से पश्चिम दिशा में मुड़कर नहर-नहर बून्दी रोड़ पर स्थित नाले से दक्षिण दिशा में मुड़कर रास्ते-रास्ते शुगरमिल चौराहे तक बायी आबादी को शामिल करते हुए चौराहे से मेगा हाईवे पर चलते हुए इन्द्रा कॉलोनी पंचायत समिति रेल्वे स्टेशन को शामिल करते हुए सुरजमल गुर्जर के मकान तक मध्य का सम्पूर्ण क्षेत्र।

अधिशायी अधिकारी

नगर पालिका केशवरायपाटन

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।